

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 2018

संख्या लैज० 15/2018— दि हरियाणा सिविल सर्विसिज़ (इग्ज़ेक्यूटिव ब्रांच) ऐन्ड अलाइड सर्विसिज़ ऐन्ड अदर सर्विसिज़ कॉमन/ कम्बाइन्ड इग्जामिनेशन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 मई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12

हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं

सामूहिक/संयुक्त परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2018

हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा

अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002, को

आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामूहिक/संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002, के परिशिष्ट अ में,— 2002 का हरियाणा अधिनियम 4 के परिशिष्ट अ का संशोधन।
 - (i) क्रम संख्या 10 के सामने प्रविष्टि में, अंत में विद्यमान “।” चिह्न का लोप कर दिया जायेगा ; तथा
 - (ii) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“11. नायब तहसीलदार”।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।